



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122023-250921
CG-DL-E-27122023-250921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861]
No. 861]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2023/पौष 6, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2023/PAUSHA 6, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2023
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/1/एस/09/डीडी/1/एस/आईएनएफ/09/डीसी/41/09 : चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. शिवा प्रसाद पुलवर्णी (सदस्यता संख्या 204076), फ्लैट नंबर 501, ब्लॉक ए फ्रेश लिविंग अपार्टमेंट्स, रिलायंस फ्रेश सुपर मार्केट के पास, हैदराबाद (तेलंगाना)-500081, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) और भाग I के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है। अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सीए. शिवा प्रसाद पुलवर्णी (सदस्यता संख्या 204076) के नाम को स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया। अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल की, जिसमें 25 फरवरी, 2012 के आदेश द्वारा अंतरिम रोक मंजूर की गई थी। तथापि, अपीलीय प्राधिकरण ने अपने तारीख 5 सितंबर, 2012 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया तथा अनुशासन समिति के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की। इसके अनुपालन में, प्रत्यर्थी ने मामले में उन पर अधिरोपित जुर्माने के प्रति आईसीएआई के पक्ष में 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर सीए. शिवा प्रसाद पुलवर्णी (सदस्यता संख्या 204076) ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका सं. 553/2013 दायर की, जिसमें 18 फरवरी, 2013 के आदेश द्वारा अंतरिम रोक

मंजूर की गई थी। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर-अभियोजन के कारण तारीख 24 मई, 2023 के अपने आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सी.ए. शिवा प्रसाद पुलवार्थी (सदस्यता संख्या 204076) का नाम तारीख 27 दिसंबर, 2023 से स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./644/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/1/S/09/DD/1/S/INF/09/DC/41/09: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Siva Prasad Pulavarthi (Membership No. 204076), Flat No. 501, Block A Fresh Living Apartments, Next to Reliance Fresh Super Market, HYDERABAD(Telangana)-500081**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II and Clause (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act. After affording an opportunity of hearing in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, the Disciplinary Committee ordered for PERMANENT removal of the name of aforesaid **CA. Siva Prasad Pulavarthi (Membership No. 204076)** from the Register of Members and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only). Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949, wherein an interim stay was granted vide Order dated 25th February, 2012. However, the Appellate Authority vide its Order dated 5th September, 2012 dismissed the appeal and upheld the impugned Order of the Disciplinary Committee. In compliance of the same, the Respondent had deposited a demand draft of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only) in favour of ICAI against the fine imposed upon him in the matter. Aggrieved by the said Order, **CA. Siva Prasad Pulavarthi (Membership No. 204076)** filed a Writ Petition bearing no. 553/2013, before the Hon'ble High Court of Delhi, wherein an interim stay was granted vide Order dated 18th February, 2013. However, the said Writ Petition was dismissed by the Hon'ble High Court of Delhi vide its Order dated 24th May, 2023, on account of non-prosecution. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Siva Prasad Pulavarthi (Membership No. 204076)**, shall stand PERMANENTLY removed from the Register of Members with effect from 27th December, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./644/2023-24]